



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1941 (श10)
(सं0 पटना 1089) पटना, बुधवार, 25 सितम्बर 2019

सं० 5/सी0आर0-111/2008-7829

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प
19 सितम्बर 2019

विषय :- भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण के संबंध में।

पी0ए0आर0 नियम, 2007 में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सभी स्तरों के पदधारकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-3943, दिनांक-10.05.2012, संकल्प संख्या-6199, दिनांक-01.08.2012, संकल्प संख्या-6698, दिनांक-12.08.2014, संकल्प संख्या-5477, दिनांक-18.07.2016, संकल्प संख्या-440, दिनांक-18.01.2017, संकल्प संख्या-8496, दिनांक-27.09.2018 एवं संकल्प संख्या-6429, दिनांक-06.08.2019 के द्वारा बिहार संवर्ग के कतिपय संवर्गीय एवं गैर संवर्गीय पदों के विरुद्ध कार्यरत पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण किया गया है।

2. विभागीय संकल्प-सह- ज्ञापांक-6588, दिनांक-13.08.2019 द्वारा पूर्व से कार्यरत चार प्रक्षेत्रों यथा- पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर को समाप्त कर कुल 12 पुलिस क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है। इन 12 क्षेत्रों में से क्रमशः केन्द्रीय क्षेत्र, पटना, मगध क्षेत्र, गया, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा एवं पूर्णियाँ क्षेत्र पूर्णियों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित करने एवं शेष क्षेत्रों में पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

3. उक्त निर्धारित व्यवस्था के आलोक में राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदधारकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकारों का पुनर्निर्धारण निम्नरूपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र० सं०	प्रतिवेदित पदाधिकारी	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
1	सहायक पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक	जिला पदाधिकारी	पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक
2	जिला पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक	जिला पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक, बिहार	मुख्यमंत्री
3	क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक	प्रमंडलीय आयुक्त	पुलिस महानिदेशक, बिहार	मुख्यमंत्री
4	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक, बिहार	मुख्य सचिव, बिहार	मुख्यमंत्री

4. कंडिका-3 में निर्धारित प्रावधान मूल्यांकन वर्ष 2019-20 का दिनांक-15.08.2019 से आगे की अवधि के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्रभावी होगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या-3943, दिनांक-10.05.2012 एवं 5447, दिनांक-18.07.2016 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा, शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1089-571+500 -डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>